



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)  
(सं0 पटना 20) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर 2012

सं0 22/नि0सि0 (पट0) 3-12/2012/1108—पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, करबिगहिया, पटना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग की बहुमूल्य सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अतिक्रमित करते हुए उस पर बहुमंजिली इमारत (अर्पाटमेंट) निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। जालसाजी में श्री शशि रंजन पाण्डेय, आई0 डी0-3309 तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल नौबतपुर, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, सारण प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, छपरा द्वारा दिनांक 29.8.2000 को अपने हस्ताक्षर से एक रसीद काटी गई है जो वर्ष 1999-2000 से लेकर 2001-02 तक के लिए है। अतएव सरकारी जमीन के अतिक्रमण में उनकी सक्रिय अन्तर्लिप्तता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिये श्री पाण्डेय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशि रंजन पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री पाण्डेय को नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन की अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।
4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
श्याम कुमार सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 20-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>